



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“एण्टी रोमियो टीम” द्वारा बालिकाओं/महिलाओं को कोविड-19 के प्रति किया जागरुक एवं वितरित किये मास्क



आज दिनांक 20.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्रभारी एण्टी रोमियो टीम निरीक्षक रचना सिंह मय टीम द्वारा नगर के मुख्य बाजार व मन्दिरों में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं/श्रद्धालुओं को कोविड-19 के प्रति किया जागरुक करते हुए उन्हें घरों से बाहर निकलते समय **मास्क लगाने एवं हाथों को सैनिटाइजर व साबुन**

से धोने को कहा गया। साथ ही 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई। इस दौरान निरीक्षक रचना सिंह द्वारा मास्क का वितरण भी किया गया।

उ0नि0 शिल्पी शुक्ला महिला थाना मय टीम द्वारा नगर के बैंकों की चेकिंग की गई एवं बैंक आये लोगो से 02 गज की दूरी व मास्क का प्रयोग सहित अन्य कोविड-19 नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान कोविड-19 चेकिंग अभियान के तहत लोगो को चालान भी किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कबरई पुलिस ने गिरफ्तार किया वाँछित अभियुक्त



आज दिनांक 20.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष कबरई दिनेश कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना हाजा पर **मु.अ.सं. 129/2021 धारा 354 भादवि व 8 पास्को अधिनियम** से सम्बन्धित 01 नफर वाँछित मुकेश पुत्र रामसजीन अहिरवार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम खरका थाना कबरई जिला महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम पहरा खरका मोड से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मुकेश पुत्र रामसजीन अहिरवार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम खरका थाना कबरई जिला महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह तोमर
2. पीआरडी रामफल



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 20.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा 112 कर्मियों को ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से बचाव के दिये टिप्स

क्षेत्राधिकारी चरखारी मय फोर्स के पैदल गस्त के दौरान लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक

आज दिनांक 20.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा जनपद में संचालित 112 के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताये गये, ताकि अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय थाना चरखारी पुलिस बल के साथ कस्बा चरखारी में पैदल गस्त करके लोगो को “02 गज की दूरी मारक है जरूरी” एवं समय-समय पर अपने हाथों को साबुन/सैनिटाइजर से धोने की अपील की गई। समस्त थानो द्वारा भी क्षेत्र के सभी लोगो को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया। नियमो का उल्लंघन करने पर 16 ई-चालान, 53 व्यक्तियों से 15650/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

